



PHONE : 011-23272216-18
: 011-23278001-02
FAX : 011-23274606

Website : <http://www.mgfltd.com>
E-mail : mgfltd@hotmail.com
CIN No : L74899DL1930PLC000208
GSTIN : 07AAACT2356D2ZN

THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED

M.G.F. HOUSE,
Regd. & H.O. : 4/17-B, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110 002

DLI:CS:BSE:NSE:2020

August 14,2020

The Secretary,
Bombay Stock Exchange Limited.,
25th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001
Stock Code: 501343

The Secretary,
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra(E)
Mumbai-400051
Stock Code: Motogenfin

Dear Sir,

Re: Submission of published copy of Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the first quarter ended June 30,2020 under Ind-AS Rules

In terms of Regulation 47 of SEBI(LODR) Regulations,2015, we are enclosing herewith a scanned copy of Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the first quarter and year ended June 30,2020 under IND-AS Rules published in the newspapers viz, "The Financial Express" (English) and "Dainik Mahalaxmi "(Hindi) both today, the August 14,2020.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED

(M.K. MADAN)
VP,CS & COMPLIANCE OFFICER
ENCL: AS ABOVE.

Specialised SME 18 Branch
1702, MIT Park, Gurgaon
CIN: L28090DL1999PLC05919

Goodluck India Ltd.
Regd. Off: 509, Arunachal Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi - 110001
Website: www.goodluckindia.com
E-mail: goodluck@goodluckindia.com

ARBITRATION BETWEEN M/S. SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED.
...CLAIMANT
...RESPONDENT
MR. ASHOK KUMAR JAISWAL
(Agreement No. 150486 dated 15.12.2017)

ARBITRATION BETWEEN M/S. SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED.
...CLAIMANT
...RESPONDENT
MR. PUSPESH KUMAR VERMA
(Agreement No. 149413 dated 15.12.2017)

SRI AMARNATH FINANCE LIMITED
Regd. Office: 4883-84, Second Floor, Main Road Kucha Ustad Dag, Chandni Chowk, Delhi-110006
CIN: L74899DL1985PLC020194
Email: amarnath01finance@gmail.com
Contact: 011-23953204

HRB FLORICULTURE LIMITED
CIN: L01300RJ1995PLC009541
Reg. Office: A 28, Ram Nagar, Shastri Nagar, Jaipur-302016 • Ph: 0141-2303098, 0141-2303097 (Telex), E-mail: hrbltd@yahoo.com. Website: www.hrb.co.in

INTERNATIONAL DATA MANAGEMENT LIMITED
CIN: L72300DL1977PLC008782
Regd. Off.: 806, Sidhantia, 36, Nehru Place, New Delhi-110019; Tel: 011-26444812
Website: www.idmlimited.in

GOODLUCK INDIA LTD.
Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Tuesday, 25th August, 2020** at Corp. Office of the Company, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June 2020.

Pursuant to the directions given by the Ad Arbitrator on 29.06.2020, take note that the above mentioned Arbitration Proceedings has been filed against **Mr. Ashok Kumar Jaiswal** from 347/277, Old Tiahi Gari, Dazler Khat, Rajendra Nagar, Lucknow-226004, for recovery of a sum of **Rs. 53,57,434/-** as on 30.04.2019 and pendente lite and other reliefs as prayed for and you are directed to appear before the Ad Arbitrator on **25th August, 2020** at 4:30 p.m. at 9, Old Post Office Street, Kolkata - 700001 and defend the matter.

Pursuant to the directions given by the Ad Arbitrator on 29.06.2020, take note that the above mentioned Arbitration Proceedings has been filed against **Mr. Puspesh Kumar Verma** from 587/11 Garchi Nagar, Teelbagh, Raibanki Road, Lucknow Pin-226002, for recovery of a sum of **Rs. 50,71,875.12** as on 01.05.2019 and pendente lite and other reliefs as prayed for and you are directed to appear before the Ad Arbitrator on **25th August, 2020** at 4:30 p.m. at 9, Old Post Office Street, Kolkata - 700001 and defend the matter.

NOTICE
Pursuant to Regulation 47(1)(a) of SEBI (LODR) Regulation, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company has been scheduled to be held on **Thursday, the 20th August, 2020** to consider and approve the **un-audited Financial Results for the quarter and three month ended on 30th June, 2020**.

Extract of the Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2020 (Amt in Rs.)

Particulars	Quarter ended	Corresponding	Year ended
	30.06.2020	30.06.2019	31.03.2020
	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	-	-	-
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,41,528)	(2,60,306)	(1,311,018)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,41,528)	(2,60,306)	(1,311,018)
Net Profit / (Loss) for the period after tax	(1,41,528)	(2,60,306)	(1,311,018)
Total Comprehensive Income for the period	(1,41,528)	(2,60,306)	(1,311,018)
Equity Share Capital	2,27,63,000	2,27,63,000	2,27,63,000
Basic & Diluted Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)	(0.06)	(0.11)	(0.58)

NOTICE TO SHAREHOLDERS
NOTICE is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of the Members of International Data Management Limited will be held on **Wednesday, 23rd September, 2020** at 2:30 PM, Indian Standard Time ("IST") through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC"/"OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of AGM.

Canara Bank
Branch Address: CANARA BANK, Bawana Road, Narela Mandi, Narela, Delhi-110040

POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)] FOR IMMOVABLE PROPERTY
Whereas, the undersigned being the authorised officer of the Canara Bank RO, Pitampura, Delhi under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "Act") and in exercise of powers conferred under Sub-Section 13(12) read with rule 3 of the security interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice dated 04.03.2020 calling upon the following borrower(s) & Guarantor(s) **Krishan Kumar & Prop- Shri Krishan Kumar S/o Shri Rameshwar Dayal 2122/1 Nai Basti, Narela, Delhi-110040** to repay Rs. 9025125.18/- (Rupees Ninety Lkhs Twenty Five Thousand One Hundred Twenty five and Eighteen Paise Only) plus interest @ 12.90% with monthly rests, along with penal interest in secured over draft **Loan Account 9025125000018** from the date of receipt of the said notice.

Public Notice
This is to bring to the notice of general public that Transworld Securities Limited has ceased to function as a Participant of National Securities Depository Limited (NSDL) as its Partnership has been surrendered. The certificate of registration granted to Transworld Securities Limited has been cancelled by the Securities and Exchange Board of India with effect from August 11, 2020. Henceforth, Transworld Securities Limited shall not carry on any activity as a Participant of NSDL. In case any Client of Transworld Securities Limited has any grievance or dispute in respect of the depository services rendered by Transworld Securities Limited while it was functioning as a Participant of NSDL, he/she/it may report the same in writing to "The Officer Incharge", Investor Relationship Cell, National Securities Depository Limited, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Panel (West), Mumbai 400013, within 30 days of publication of this notice or email at relations@nsdl.co.in. No grievances/claims/disputes etc. will be entertained after this date.

TRANSWORLD SECURITIES LIMITED
22/44 West Patel Nagar, New Delhi - 110008
Public Notice
This is to bring to the notice of general public that Transworld Securities Limited has ceased to function as a Participant of National Securities Depository Limited (NSDL) as its Partnership has been surrendered. The certificate of registration granted to Transworld Securities Limited has been cancelled by the Securities and Exchange Board of India with effect from August 11, 2020. Henceforth, Transworld Securities Limited shall not carry on any activity as a Participant of NSDL. In case any Client of Transworld Securities Limited has any grievance or dispute in respect of the depository services rendered by Transworld Securities Limited while it was functioning as a Participant of NSDL, he/she/it may report the same in writing to "The Officer Incharge", Investor Relationship Cell, National Securities Depository Limited, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Panel (West), Mumbai 400013, within 30 days of publication of this notice or email at relations@nsdl.co.in. No grievances/claims/disputes etc. will be entertained after this date.

PUBLIC NOTICE
Form No. INC-26
(Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Before the Central Government
Regional Director, Northern Region, New Delhi
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND
In the matter of **Gargiya Finance & Investment Private Limited** having its registered office at Office Space No. 244, Second Floor, Sundram Tower, DDA Community Centre, Paschim Vihar, New Delhi-110063

AND
In the matter of **Erie Buildcon Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

AND
In the matter of **Chiba Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

AND
In the matter of **Chibha Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

PUBLIC NOTICE
Form No. INC-26
(Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Before the Central Government
Regional Director, Northern Region, New Delhi
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND
In the matter of **Chibha Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

AND
In the matter of **Chibha Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

AND
In the matter of **Chibha Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

AND
In the matter of **Chibha Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

AND
In the matter of **Chibha Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

AND
In the matter of **Chibha Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

PUBLIC NOTICE
Form No. INC-26
(Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014) Before the Central Government
Regional Director, Northern Region, New Delhi
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND
In the matter of **Erie Buildcon Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

AND
In the matter of **Chiba Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

AND
In the matter of **Chibha Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

AND
In the matter of **Chibha Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

AND
In the matter of **Chibha Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

AND
In the matter of **Chibha Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

AND
In the matter of **Chibha Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

AND
In the matter of **Chibha Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

AND
In the matter of **Chibha Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

AND
In the matter of **Chibha Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

AND
In the matter of **Chibha Infotech Private Limited** having its registered office at Office No. F-11, First Floor, St. Soldier Tower, G-Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi-110018

JOHN OAKEY AND MOHAN LIMITED
CIN: L15549DL1962PLC003726
REGD.OFFICE: Office No 4 Ff, CSC pocket E market Mayur Vihar Phase 2 Delhi 110091
Tel.: 0120-2857298
E-Mail : oakeymohan@gmail.com. Website: www.oakeymohan.com

EXTRACT OF THE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020 (Rs. in Lacs)

Particulars	Quarter ended	Quarter Ended	Quarter Ended	Year Ended
	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1 Total Income from Operations	194.39	384.79	528.41	1,988.91
2 Profit / (Loss) (before Tax and Exceptional items)	(51.67)	14.73	26.50	72.47
3 Profit / (Loss) before tax(after Exceptional items)	(51.67)	14.73	26.50	72.47
4 Net Profit/(Loss) for the period after tax	(38.69)	9.98	18.95	45.76
5 Total Comprehensive Income	(29.95)	12.15	14.44	42.72
6 Paid Up/Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/Each)	48.38	48.38	48.38	48.38
7 Total Reserves	-	-	-	1,588.13
8 Earnings Per Share (of Rs. 10/ Each) Not annualised in Rs.	-	-	-	-
a Basic	(8.00)	2.06	3.92	9.46
b Diluted	(8.00)	2.06	3.92	9.46

NOTES:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.mse.in and on Company's website at www.oakeymohan.com

POSTPONEMENT OF BOARD MEETING
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that due to unavoidable circumstances the meeting of Board of Directors of the Company which was re-scheduled to be held on **Thursday, August 13, 2020** i.e. today, is now postponed and further re-scheduled to be held on **Tuesday, August 18, 2020** inter alia, to consider, approve and take on record the Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on March 31, 2020.

MGF THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED
CIN: L74899DL1930PLC000208, GST NO. 07AAACT2356D22N
REGD. OFFICE : MGF HOUSE , 4 / 178, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI 110002.
Email ID: mgfltd@hotmail.com, Website : http://www.mgfltd.com, Phone : 23272216-18, 23278001-02

Extract of Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2020 (₹ in Lakhs)

S. No.	Particulars	Standalone		Consolidation			
		Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Year ended		
		30-06-2020	31-03-2020	30-06-2020	31-03-2020		
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)		
1	Total income from operations	22.91	350.73	996.18	22.91	350.73	996.18
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(173.62)	(289.93)	(541.34)	(173.62)	(135.35)	(386.76)
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(173.62)	(289.93)	(541.34)	(173.62)	(135.35)	(386.76)
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(173.62)	(293.36)	(544.77)	(173.15)	(142.15)	(349.26)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(170.84)	(282.90)	(534.51)	(170.26)	(131.73)	(378.46)
6	Equity Share Capital	1,936.36	1,936.36	1,936.36	1,936.36	1,936.36	1,936.36
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited balance sheet of the previous year	-	3,568.33	-	-	-	3,424.49
8	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations)						
a) Basic (in ₹)	(0.45)	(0.76)	(1.41)	(0.45)	(0.37)	(0.90)	
b) Diluted (in ₹)	(0.45)	(0.76)	(1.41)	(0.45)	(0.37)	(0.90)	

NOTES:
1. The above is extract of the detailed format of quarterly Financial Results ending June 30, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly ended Financial Results and Explanatory Notes are available on the Stock Exchanges website at www.nseindia.com and on the Company's website at www.mgfltd.com.

ARBITRATION BETWEEN M/S. SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED.
...CLAIMANT
...RESPONDENTS
M/S. SINGH ENTERPRISES & ANR.
(Agreement No. 150549 dated 15.05.2018)

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED
CIN: L65993DL1989PLC035409
Regd. Off.: D-15 Pampoh Enclave, Greater Kailash-1, New Delhi - 110048
Phone: +91-11-45210051
E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com
Website: www.aiiml.in

Public Notice
This is to bring to the notice of general public that Transworld Securities Limited has ceased to function as a Participant of National Securities Depository Limited (NSDL) as its Partnership has been surrendered. The certificate of registration granted to Transworld Securities Limited has been cancelled by the Securities and Exchange Board of India with effect from August 11, 2020. Henceforth, Transworld Securities Limited shall not carry on any activity as a Participant of NSDL. In case any Client of Transworld Securities Limited has any grievance or dispute in respect of the depository services rendered by Transworld Securities Limited while it was functioning as a Participant of NSDL, he/she/it may report the same in writing to "The Officer Incharge", Investor Relationship Cell, National Securities Depository Limited, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Panel (West), Mumbai 400013, within 30 days of publication of this notice or email at relations@nsdl.co.in. No grievances/claims/disputes etc. will be entertained after this date.

ARBITRATION BETWEEN M/S. SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED.
...CLAIMANT
...RESPONDENTS
M/S. SINGH ENTERPRISES & ANR.
(Agreement No. 150549 dated 15.05.2018)

Public Notice
This is to bring to the notice of general public that Transworld Securities Limited has ceased to function as a Participant of National Securities Depository Limited (NSDL) as its Partnership has been surrendered. The certificate of registration granted to Transworld Securities Limited has been cancelled by the Securities and Exchange Board of India with effect from August 11, 2020. Henceforth, Transworld Securities Limited shall not carry on any activity as a Participant of NSDL. In case any Client of Transworld Securities Limited has any grievance or dispute in respect of the depository services rendered by Transworld Securities Limited while it was functioning as a Participant of NSDL, he/she/it may report the same in writing to "The Officer Incharge", Investor Relationship Cell, National Securities Depository Limited, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Panel (West), Mumbai 400013, within 30 days of publication of this notice or email at relations@nsdl.co.in. No grievances/claims/disputes etc. will be entertained after this date.

PUNJAB COMMUNICATIONS LIMITED
Regd Office : B-21, Phase VIII, Industrial Area, S.A.S. Nagar (Mohali)-160011
(CIN: L32022PB1981SC004518) (Web: www.puncom.com)

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020
(Taken on record by the Board at their Meeting held on 13th August, 2020)

S. No.	Particulars	Quarter Ended	Year Ended	Quarter Ended
		30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)
1	Total Income from operations	281.54	2,750.54	864.23
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(283.80)	(1,141.94)	(254.52)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(283.80)	(1,141.94)	(254.52)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(283.80)	(1,141.94)	(254.52)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(282.72)	(1,228.51)	(296.26)
6	Equity Share Capital (₹ 10/- each)	1,202.38	1,202.38	1,202.38
7	Reserves (including Revaluation Reserve) shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	8,621.08	-
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
a) Basic	(2.32)	(0.91)	(2.13)	
b) Diluted	(2.32)	(0.91)	(2.13)	

NOTES:
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results for the Quarter ended on 30th June 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com (Security Code: 500048) & on Company's website i.e. www.puncom.com at the following link: <http://www.puncom.com/finr>

Public Notice
This is to bring to the notice of general public that Transworld Securities Limited has ceased to function as a Participant of National Securities Depository Limited (NSDL) as its Partnership has been surrendered. The certificate of registration granted to Transworld Securities Limited has been cancelled by the Securities and Exchange Board of India with effect from August 11, 2020. Henceforth, Transworld Securities Limited shall not carry on any activity as a Participant of NSDL. In case any Client of Transworld Securities Limited has any grievance or dispute in respect of the depository services rendered by Transworld Securities Limited while it was functioning as a Participant of NSDL, he/she/it may report the same in writing to "The Officer Incharge", Investor Relationship Cell, National Securities Depository Limited, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Panel (West), Mumbai 400013, within 30 days of publication of this notice or email at relations@nsdl.co.in. No grievances/claims/disputes etc. will be entertained after this date.

Public Notice
This is to bring to the notice of general public that Transworld Securities Limited has ceased to function as a Participant of National Securities Depository Limited (NSDL) as its Partnership has been surrendered. The certificate of registration granted to Transworld Securities Limited has been cancelled by the Securities and Exchange Board of India with effect from August 11, 2020. Henceforth, Transworld Securities Limited shall not carry on any activity as a Participant of NSDL. In case any Client of Transworld Securities Limited has any grievance or dispute in respect of the depository services rendered by Transworld Securities Limited while it was functioning as a Participant of NSDL, he/she/it may report the same in writing to "The Officer Incharge", Investor Relationship Cell, National Securities Depository Limited, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Panel (West), Mumbai 400013, within 30 days of publication of this notice or email at relations@nsdl.co.in. No grievances/claims/disputes etc. will be entertained after this date.

Public Notice
This is to bring to the notice of general public that Transworld Securities Limited has ceased to function as a Participant of National Securities Depository Limited (NSDL) as its Partnership has been surrendered. The certificate of registration granted to Transworld Securities Limited has been cancelled by the Securities and Exchange Board of India with effect from August 11, 2020. Henceforth, Transworld Securities Limited shall not carry on any activity as a Participant of NSDL. In case any Client of Transworld Securities Limited has any grievance or dispute in respect of the depository services rendered by Transworld Securities Limited while it was functioning as a Participant of NSDL, he/she/it may report the same in writing to "The Officer Incharge", Investor Relationship Cell, National Securities Depository Limited, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Panel (West), Mumbai 400013, within 30 days of publication of this notice or email at relations@nsdl.co.in. No grievances/claims/disputes etc. will be entertained after this date.

Public Notice
This is to bring to the notice of general public that Transworld Securities Limited has ceased to function as a Participant of National Securities Depository Limited (NSDL) as its Partnership has been surrendered. The certificate of registration granted to Transworld Securities Limited has been cancelled by the Securities and Exchange Board of India with effect from August 11, 2020. Henceforth

